



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 22, 1977/माघ 2, 1898

No. 22]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 22, 1977/MAGHA 2, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 22nd January 1977

G.S.R 29(F).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) No 401-Customs, dated 2nd August, 1978, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby exempts animal feed, falling under Heading No. 21 of the Second Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), and specified in the Table annexed hereto, when exported out of India from the whole of the duty of customs leviable thereon under the said Second Schedule

TABLE

- 1 Animal feed of any of the following descriptions —
 - (a) Cotton seed cakes, whether decorticated or not
 - (b) Cotton seed extractions, whether decorticated or not
 - (c) Lin-seed cakes
 - (d) Lin-seed extractions
 - (e) Guar meal

2 Mixed or compounded animal feed, containing one or more of the ingredients mentioned at S No 1 above, whether or not such animal feed contains any other oil-cakes or substances, provided the protein content of such animal feed is not more than 40 per cent.

[No. 16/F No. 370/100/76-CUS. I]

M JAYARAMAN, Under Secy.

राजस्व और बैकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचना

सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1977

सांका०नि० 29(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के राजस्व और बैकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) की अधिसूचना सं० 401 सी० शु० ता० 2 अगस्त, 1976 को अधिक्रान्त करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की द्वितीय अनुसूची के शीर्ष सं० 21 के अन्तर्गत सम्मिलित और इससे उपाबद्ध सारणी में विनिर्दिष्ट पशु-चारे को, जब उनका निर्यात भारत से किया जाए, उक्त द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क से छूट देती है, अर्थात् —

सारणी

निम्नलिखित में से किसी किसम का पशु चारा,—

- (क) बिनोले की खली, निर्बल्कीकृत हो या नहीं
- (ख) बिनोले का सार (इक्सट्रैक्शन) निर्बल्कीकृत हो या नहीं
- (ग) अलसी की खली
- (घ) अलसी का सार (इक्सट्रैक्शन)
- (ङ) गुआर-चारा

2. ऐसे मिश्रित या आमिश्रित पशु-चारे, जो उपर क्रम सं० 1 में उल्लिखित एक या एक से अधिक तत्वों से युक्त हो, चाहे ऐसे पशु-चारे में किसी अन्य तिलहन का खली या तत्व हो या न हो परन्तु ऐसे पशुचारे में प्रोटीन तत्व 40 प्रतिशत से अधिक न हो ।

[सं० 16 फा० सं० 370, 100/76-सी० शु० I]

एम० जयरामन, अवर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977